

GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 80]	दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 2019/ वैशाख 7, 1941	[ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 29
No. 80]	DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 2019/ VAISAKHA 7, 1941	[N.C.T.D. No. 29

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारिता विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 1 सितम्बर, 2017

सं.फा. 47/पोलिसी/आरसीएस/कॉप./2017/436(A).—दिल्ली सहकारी समितियां अधिनियम, 2003 (2004 का दिल्ली अधिनियम 3) की धारा 137 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 2007 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को दिल्ली सहकारी समितियां (संशोधन) नियमावली, 2017 कहा जाये।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. दिल्ली सहकारी समितियां नियमावली, 2007 के नियम 90, उपनियम (1) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“उपबंध है कि पंजीयक, निम्नलिखित समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् लॉटरी के ड्रा को संचालन के लिये सदस्यों के नामों की संस्तुति करेगा:—

- (1) सचिव (सहकारिता)
- (2) पंजीयक सहकारी समितियां

अध्यक्ष

सदस्य

- |     |  |       |
|-----|--|-------|
| (3) | विधि एवं न्याय विभाग का प्रतिनिधि जो कि उप-सचिव के रैंक से कम न हो | सदस्य |
| (4) | वित्त विभाग का प्रतिनिधि जो कि उप-सचिव के रैंक से कम न हो          | सदस्य |
| (5) | विशेष पंजीयक / अपर पंजीयक / संयुक्त पंजीयक                         | सदस्य |

राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल  
के आदेश से और उनके नाम पर,  
शूरबीर सिंह, सचिव-सह-पंजीयक

### CO-OPERATIVE DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 1st September, 2017

**F. No. 47/POLICY/RCS/COOP./2017/436(A).**—In exercise of the powers conferred by section 137 of the Delhi Co-operative Societies Act, 2003 (Delhi Act 3 of 2004), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules, to amend the Delhi Co-operative Societies Rules, 2007 namely:-

#### 1. Short Title and Commencement:-

- (1) These rules may be called the Delhi Co-operative Societies (Amendment) Rules, 2017
- (2) They shall come into force on date of their publication in the Delhi Gazette.

**2. In the Delhi Co-operative Societies Rules, 2007, in rule 90, sub-rule(1), for the proviso, the following shall be substituted, namely:-**

“Provided that the Registrar shall recommend the names of members to conduct draw of lots after seeking prior approval of the following committee:-

- |     |   |                   |
|-----|---|-------------------|
| (1) | Secretary (Cooperation)   | _____ Chairman;   |
| (2) | Registrar Cooperative Societies   | _____ Member;     |
| (3) | Representative of Law & Justice Deptt.<br>not below the rank of Dy. Secretary | _____ Member;     |
| (4) | Representative of Finance Deptt.<br>not below the rank of Dy. Secretary       | _____ Member; and |
| (5) | Spl. Registrar/Addl. Registrar/Joint Registrar                                | _____ Member.”    |

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi.  
SHURBIR SINGH, Secy-Cum-Registrar